

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-96/2017/3432/दो-2-2017-22(32)/82
लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विशेष सचिव, गोपन विभाग एवं अपर निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यों के निष्पादन हेतु विशेष कार्याधिकारी पदेन विशेष सचिव, गोपन विभाग, उ0प्र0शासन का एक निःसंवर्गीय अस्थायी पद कार्यालय ज्ञाप सं0-3353/दो-2-2014-22(32)/82, दि0-29.8.2014 में सृजित किया गया था। उक्त पद की अन्तिम बार निरन्तरता कार्यालय ज्ञाप सं0-184/2016/4411/दो-2-2016-22(32)/82, दिनांक 22.12.2016 द्वारा दिनांक 31.8.2017 तक बढ़ायी गयी थी। उक्त पद की आवश्यकता वर्तमान में भी बनी हुई है। अतः कार्यालय ज्ञाप दि0-29.8.2014 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी/पदेन विशेष सचिव, गोपन विभाग, उ0प्र0शासन के एक निःसंवर्गीय अस्थायी पद की निरन्तरता दि0-1.9.2017 से 28.2.2018 तक कार्यालय ज्ञाप सं0-3354/दो-2-2014-22(32)/82, दिनांक 29.8.2014 में उल्लिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री कृष्ण गोपाल को उक्त वेतनमान में उक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 सचिवालय' के अधीन सुसंगत मानक मर्दों के अधीन डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-695/दस-2017, दि0-01 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0शासन।
6. इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ।
9. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/12 एवं वित्त (सामान्य) अनु0-3
11. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7/8/9(विविध)
12. सम्बन्धित अधिकारी।
13. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।